



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 563(अ).—इस विभाग की दिनांक 04.01.2013 की अधिसूचना संख्या एफजेड-11014/04/2011-जीसी के अधिक्रमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और धारा 19(1) के संदर्भ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम और पदनाम के सामने दर्शाए गए संबंधित प्रभागों/अनुभागों द्वारा संचालित किए जा रहे विशिष्ट मामलों के संबंध में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआई) और अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

क्रम संख्या	सीपीआईओ का नाम और पदनाम	विषय	फोन नं./ई-मेल आईडी	अपील अधिकारी का नाम/पदनाम/ फोन/ई-मेल
1	श्री बिधिचन्द्र, अवर सचिव (जीसी एवं संसद)	विभाग में समन्वय से संबंधित सभी मामले	011-23044628 chand.bidhi@nic.in	श्री के. उन्नीकृष्णन, उप सचिव (सामान्य प्रशासन, जीसी एवं संसद एवं नीरांचल प्रावण 011-23063271 unni.dgca@nic.in

2	श्री ए. के. विद्यार्थी, अनुभाग अधिकारी (एलआर)	भूमि सुधार प्रभाग से संबंधित सभी मामले	011-23061788 ak.vidyarthi@nic.in	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (एलआर) 011-23062698 neeraj.srivastava@nic.in
3	श्री पी. सी. मीना, अवर सचिव (एमएण्डई)	एमएण्डई, आईईसी, आरएफडी से संबंधित सभी मामले	011-23044621 prakash.meena@nic.in	श्री ए.के. गौतम, आर्थिक सलाहकार (टीडीईटी, बायोफ्यूल, एमएण्डई, आईईसी और आरएफडी) 011-24362396 ak.gautam@nic.in
4	श्री पीतम सिंह, सहायक आयुक्त (टीडीईटी बायोफ्यूल)	टीडीईटी/ बायोफ्यूल से संबंधित सभी मामले	011-23044636 Singh.p@nic.in	
5	श्री अनूप कुमार, अवर सचिव (प्रशासन)	सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी मामले	011-23062722 k.anoop@nic.in	
		स्थापना से संबंधित सभी मामले		श्रीमति सरोज जैसिया, उप सचिव (स्थापना, बजट, आरएफडी) 011-23062456 saroj.jaisia@nic.in
6	श्री दिनेश सिंह, उप सचिव (आईडब्ल्यूएमपी)	वाटरशेड प्रभाग से संबंधित सभी मामले	011-24360692 dineshsingh55@nic.in	श्री जगदीश सिंह, डीआईजीएफ 011-24362569 singh.jd@nic.in
7	श्री जे. आर. पौरी, उप निदेशक (राजभाषा)	हिंदी अनुभाग से संबंधित सभी मामले	011-23044638 jr.pauri@nic.in	श्रीमति सरोज जैसिया, उप सचिव (स्थापना, बजट, आरएफडी) 011-23062456 saroj.jaisia@nic.in

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) सूचना मांगने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करेंगे और ऐसी सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की उचित सहायता करेंगे। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए जैसा भी आवश्यक समझा जाए अन्य किसी भी अधिकारी की सहायता ले सकते हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी, जिसकी उपरोक्त अधिनियम के तहत सहायता ली गई है, को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (5) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा।

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) प्राप्त अनुरोधों की संख्या और की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखेंगे ताकि विभिन्न उपबंधों, विशेषतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

[सं. जेड-11014/01/2014-जीसी]

के. उन्नीकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Land Resources)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 563(E).—In supersession of this Department's Notification No. F. Z-11014/04/2011-GC dated 04.01.2013 and in terms of Section 5(1) and Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry of Rural Development, Department of Land Resources are hereby designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authorities from the date of issue in respect of the specific subject matters being handled by the respective Divisions/Sections mentioned against their names/designations :—

Sl. No.	Name and designation of CPIO	Subject	Phone No./Email ID	Appellate Authority Name/Designation/phone no./ e-mail
1	Sh. Bidhi Chand, Under Secretary (GC & Parl.)	All matters relating to coordination in the Department	011-23044628 chand.bidhi@nic.in	Sh. K. Unnikrishnan, Deputy Secretary (General Administration, GC&Parliament, Neeranchal procurement) 011-23063271 unni.dgca@nic.in
2	Sh. A. K. Vidyarthi, Section Officer (LR)	All matters relating to Land Reforms Division	011-23061788 ak.vidyarthi@nic.in	Sh. Neeraj Kumar Srivastava, Director (LR) 011-23062698 neeraj.srivastava@nic.in
3	Sh. P. C. Meena, Under Secretary (M&E)	All matters relating to M&E, IEC, RFD	011-23044621 prakash.meena@nic.in	Sh. A. K. Gautam, Economic Adviser (TDET, Biofuel, M&E, IEC and RFD) 011-24362396 ak.gautam@nic.in
4	Sh. Pritam Singh, Assistant Commissioner (TDET/Bio-fuel)	All matters relating to TDET/Bio-fuel	011-23044636 singh.p@nic.in	
5	Sh. Anoop Kumar, Under Secretary (Admn.)	All matters relating to General Administration	011-23062722 k.anoop@nic.in	Sh. K. Unnikrishnan, Deputy Secretary (General Administration, GC&Parliament, Neeranchal procurement) 011-23063271 unni.dgca@nic.in
		All matters relating to Establishment		Smt. Saroj Jaisia, Deputy Secretary (Establishment, Budget, RFD) 011-23062456 saroj.jaisia@nic.in
6	Sh. Dinesh Singh, Deputy Secretary (IWMP)	All matters relating to Watershed Division	011-24360692 dineshsingh55@nic.in	Sh. Jagdish Singh, DIGF 011-24362569 singh.jd@nic.in
7	Sh. J. R. Pauri, Deputy Director (OL)	All matters relating to Hindi Section	011-23044638 jr.pauri@nic.in	Smt. Saroj Jaisia, Deputy Secretary (Establishment, Budget, RFD) 011-23062456 saroj.jaisia@nic.in

2. The Central Public Information Officers (CPIOs) shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information. The Central PIOs may seek the assistance of any other officers as may be considered necessary for the proper discharge of duties. Any officers whose assistance has been sought under the above mentioned Act, such other officer shall be treated as Central PIOs under section 5(5) of the Right to Information Act, 2005.

3. The CPIO is to maintain the details regarding the number of requests received and action taken so as to ensure compliance with the various provisions particularly Section 25 of the Right to Information Act, 2005.

[No. Z-11014/01/2014-GC]

K. UNNIKRISHNAN, Dy. Secy.